



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (III)
PART II—Section 3—Sub-section (III)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]
No. 2]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 1981/फाल्गुन 5, 1902
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 1981/PHALGUNA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1981

का. आ. 128(अ).—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 108) की धारा 8 के निबन्धनों के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के संबंध में, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 (ऐसे आदेश में यथादर्शित किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में कोई परिवर्तन किए बिना) आवश्यक संशोधन निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए थे और भारत के राजपत्र तथा संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ;

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 की धारा 4 के अधीन सिक्किम राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या एक से दो तक बढ़ा दी गई है ;

और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में ठीक विद्यमान स्थिति उपदर्शित करने और आदेश को अद्यतन करने के लिए उक्त आदेश की अनुसूची 1 और 2 में कतिपय परिणामिक सुधार करना आवश्यक हो गया है ;

अतः, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 9 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1980 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में निम्नलिखित सुधार करता है :—

(1) आदेश की अनुसूची 1 में :—

(1) राज्यों के योग में, स्तम्भ 6 और 7 में विद्यमान प्रविष्टियों '77 और 36' के स्थान पर '78 और 38' प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी ;

(2) कुल योग में, स्तम्भ 6 और 7 में, विद्यमान प्राविष्टियों '78 और 37' के स्थान पर, '79 और 40' प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी ;

(2) आदेश की अनुसूची 2 में :—

(1) मद 18 सिक्किम के सामने, स्तंभ 6 के नीचे, विद्यमान अंक '1' के स्थान पर '2' अंक रखा जाएगा ;

(2) राज्यों के योग में, स्तंभ 6 और 7 में विद्यमान प्राविष्टियों '525 और 282' के स्थान पर, '542 और 303' प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी ; और

(3) कुल योग में, स्तंभ 6 और 7 में, विद्यमान प्राविष्टियों '540 और 282' के स्थान पर, '557 और 303' प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी ; और